



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

21 पौष 1938 (श0)  
(सं0 पटना 26) पटना, बुधवार, 11 जनवरी 2017

---

सं0 पी०पी०एम०- 41/2012-18/क०

कृषि विभाग

संकल्प

6 जनवरी 2017

विषय:—डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के क्षेत्राधिकार में कार्यरत तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली/कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा में वर्ष 2016 तक स्नातक में नामांकित उन छात्रों को जिन्हें केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में सम्पत्तिवर्तन के पूर्व राज्य सरकार की योजना के अधीन स्टाइपेन्ड स्वीकृत किया गया था, को शिक्षण सत्र की समाप्ति अर्थात् वर्ष 2020 तक स्टाइपेन्ड देने तथा वर्ष 2016 के बाद नामांकित छात्रों के लिए स्टाइपेन्ड योजना बंद करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 17.08.2012 को कृषि एवं उद्यान महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टाइपेन्ड देने की एक योजना स्वीकृत की गई। राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक: 04.06.2013 को राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंगीभूत मत्स्यकी/कृषि अभियंत्रण/गव्य प्रोद्योगिकी/पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टाइपेन्ड देने की योजना स्वीकृत की गई। उक्त निर्णय के आलोक में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में योजना का कार्यान्वयन किया गया।

2. भारत सरकार द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 दिनांक 28 मई, 2016 को अधिसूचित किया गया। भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना से प्रवृत्त किया गया। इस प्रकार पूर्ववर्ती राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का क्षेत्राधिकार डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि

विश्वविद्यालय को हस्तांतरित हो गया है। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार इसके अंगीभूत महाविद्यालय शासित होंगे। इस प्रकार से पूर्ववर्ती राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में कार्यरत तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली/कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को राज्य सरकार से स्टाइपेन्ड देने का औचित्य नहीं रह गया है।

3. उक्त के आलोक में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के क्षेत्राधिकार में कार्यरत तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली/कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा में वर्ष 2016 तक स्नातक में नामांकित उन छात्रों को जिन्हें केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में सम्पत्तिवर्तन के पूर्व राज्य सरकार की योजना के अधीन स्टाइपेन्ड स्वीकृत किया गया था, को शिक्षण सत्र की समाप्ति अर्थात् वर्ष 2020 तक स्टाइपेन्ड देने तथा वर्ष 2016 के बाद नामांकित छात्रों के लिए स्टाइपेन्ड योजना बंद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 26-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>